

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 696]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2019 — कार्तिक 3, शक 1941

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-668/2017/सात-1.- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप-धारा (2) सहपठित धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ नामांतरण एवं अन्य भू-अभिलेख को तैयार करने से संबंधित नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 32 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

“ 32 (क) यदि किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे क्षेत्रफल के भू-खण्ड, जिसका अंकन उस क्षेत्र के क्षेत्र नक्शा में करना संभव न हो, पर हित अर्जित किया जाता है, तो हित अर्जन करने वाला व्यक्ति, राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन के साथ वर्तमान सर्वेक्षण संख्यांक के नक्शे को 1:500 के पैमाने पर फैलाकर, उसमें भू-खण्ड के उस हिस्से का अंकन कर, जिसका उसके द्वारा हित अर्जन किया गया है, प्रस्तुत करेगा. तत्पश्चात् ही, उस हित अर्जन करने वाले व्यक्ति के लिए उस सर्वेक्षण संख्यांक का विभाजन कर एक उपखण्ड सृजित किया जायेगा तथा उसके द्वारा प्रस्तुत नक्शे को क्षेत्र नक्शा का भाग समझा जायेगा.”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन.के.खाखा, सचिव.

Atal Nagar, the 25th October 2019

NOTIFICATION

No.F 6-668/seven-1/2017. — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 258 read with Section 110 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following amendment, in the rules regarding Record of Rights, 1965, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

After rule 32 the following should be added, namely :-

“32(A). When a person acquires an interest in such plot in the area which is not possible to indicate such plot in the area map, the person acquiring the interest shall submit an application to get his name entered in the revenue records along with indicated the part of the plot, which is acquired an interest by them, by spreading the current Survey Number on a scale of 1:500. Thereafter only, a sub-plot shall be created by dividing that survey number for that person acquiring the interest and map submitted by him shall be considered as part of the area map.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
N.K.XAXA, Secretary.